

## रेबीज़

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने [रेबीज़](#) की रोकथाम और नियंत्रण हेतु **राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम (National Rabies Control Programme- NRCP)** शुरू किया है।

### उद्देश्य:

- राष्ट्रीय नशुलक दवा पहल के माध्यम से **रेबीज़ वैक्सीन और रेबीज़ इम्युनोग्लोबुलिन का प्रावधान करना**।
- रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण, **काटने वाले जानवरों का प्रबंधन**, नगिरानी एवं अंतर-क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रशिक्षण।
- जानवरों के काटने और रेबीज़ से होने वाली **मौतों की रपिर्टगि की नगिरानी को मज़बूत करना**।
- **रेबीज़ की रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना**।

### रेबीज़:

#### ■ परिचय:

- रेबीज़ एक वैक्सीन-रोकथाम योग्य **ज़ूनोटिक** विषाणु जनित बीमारी है।
- यह **राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस** के कारण होता है जो पागल जानवर (कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि) की लार में मौजूद होता है।
- यह एक संक्रमित पशु के काटने के बाद अनविरय रूप से फैलता है जिससे घाव में **लार और वायरस का नक्षेपण** होता है।
- नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद **रेबीज़ लगभग 100% घातक** है। कार्डियो-श्वसन वफिलता के कारण चार दिनों से दो सप्ताह में मृत्यु हो जाती है।
  - 99% मामलों में घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज़ वायरस के संचरण के लिये ज़म्मेदार होते हैं।
- रोगोद्भवन काल **2-3 महीने भिन्न होता है, लेकिन यह 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक भिन्न या कभी-कभी उससे भी अधिक** हो सकता है।

#### ■ उपचार:

- रेबीज़ को पालतू जानवरों का टीकाकरण कर, वन्य जीवन से दूर रहकर और लक्षणों के शुरू होने से पहले संभावित जोखिम को चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके रोका जा सकता है।

#### ■ लक्षण:

- रेबीज़ के प्राथमिक लक्षण फलू के समान हो सकते हैं और कुछ दिनों तक रह सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:
  - बुखार, सरिर्द, मतली, उल्टी, चिंता, भ्रम, अतिसक्रियता, नगिलने में कठिनाई, अत्यधिक लार, मतभ्रम, अनदिरा।

### भारत में रेबीज़ की स्थिति:

- भारत रेबीज़ के लिये स्थानिक है एवं **वश्व में रेबीज़ से होने वाली कुल मौतों में 36% मौतें भारत से संबंधित हैं**।
- रेबीज़ से प्रत्येक वर्ष 18000-20000 मृत्यु हो जाती है। भारत में रपिर्ट किये गए रेबीज़ के लगभग 30-60% मामले एवं मौतों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि बिच्चों में काटने के नशान को अक्सर पहचाना नहीं जाता एवं रपिर्ट नहीं किया जाता है।
  - भारत में मानव रेबीज़ के लगभग 97% मामलों के लिये कुत्ते ज़म्मेदार हैं, इसके बाद बिल्लियाँ (2%), गीदड़, नेवले एवं अन्य (1%) हैं। यह रोग पूरे देश में स्थानिक है।

### रेबीज़ के उन्मूलन के लिये पहलें:

- केंद्र सरकार ने पशु **जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2023** प्रस्तावित किया है, जिससे आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाना है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या स्थिरिकरण के साधन के रूप में आवारा कुत्तों का एंटी-रेबीज़

टीकाकरण और नसबंदी है।

- सरकार ने 'वर्ष 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination- NAPRE)' शुरू की है। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण और उनका प्रबंधन करना स्थानीय नकियों का कार्य है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rabies-1>

